



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2585]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 7, 2019/श्रावण 16, 1941

No. 2585]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 7, 2019/SHRAVANA 16, 1941

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

(भारतीय मानक ब्यूरो)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई 2019

का.आ. 2844(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो नियम 2018 के नियम 15 के उपनियम (1) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि जिन भारतीय मानकों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं वे स्थापित हो गये हैं।

अनुसूची

क्रम संख्या	स्थापित भारतीय मानक (को) की संख्या वर्ष और शीर्षक	स्थापित तिथि	भारतीय मानक(को) जो कि रद्द होने है, अगर है, की संख्या वर्ष और शीर्षक	रद्द होने की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	आई एस 6873 (भाग 2/अनुभाग 1) : 2019/सी आई एस पी आर 14-1 : 2016 रेडियो व्यवधान लक्षणों की मापन पद्धतियाँ एवं सीमाएँ भाग 2 विद्युत चुम्बकीय संगतता (ई एम सी) — घरेलू साधित्र, विद्युत संयंत्र और समान उपकरणों के लिए अपेक्षाएँ अनुभाग 1 प्रतिरक्षा (तीसरा पुनरीक्षण)	25 जुलाई 2019	आई एस 6873 (भाग 2/अनुभाग 1) : 2015/सी आई एस पी आर 14-1 : 2011 रेडियो व्यवधान लक्षणों की मापन पद्धतियाँ एवं सीमाएँ भाग 2 विद्युत चुम्बकीय संगतता (ई एम सी) — घरेलू साधित्र, विद्युत संयंत्र और समान उपकरणों के लिए अपेक्षाएँ	24 अगस्त 2019

			<p>अनुभाग 2 2012 में प्रकाशित प्रतिरक्षा उत्पाद परिवार के मानक (दूसरा पुनरीक्षण)</p> <p>आई एस 6873 (भाग 2) : 1999/सीआईएसपीआर 14 (1993)</p> <p>रेडियो व्यवधान लक्षणों की मापन पद्धतियाँ एवं सीमाएं भाग 2 घरेलू और समान प्रयोजनों के लिए विद्युत मोटर चालित और ताप साधित्र, विद्युत औजार और समान विद्युत उपकरण (पहला पुनरीक्षण)</p>	
2.	<p>आई एस 6873 (भाग 2/अनुभाग 2) : 2019/सी आई एस पी आर 14-2 : 2015 रेडियो व्यवधान लक्षणों की मापन पद्धतियाँ एवं सीमाएँ</p> <p>भाग 2 विद्युत चुम्बकीय संगतता (ई एम सी) — घरेलू साधित्र, विद्युत संयंत्र और समान उपकरणों के लिए अपेक्षाएँ</p> <p>अनुभाग 2 प्रतिरक्षा — पारिवारिक उत्पादों के उपयोग हेतु मानक (चौथा पुनरीक्षण)</p>	25 जुलाई 2019	<p>आई एस 6873 (भाग 2/अनुभाग 2) : 2015/सीआईएसपीआर 14-2 : 2008</p> <p>रेडियो व्यवधान लक्षणों की मापन पद्धतियाँ एवं सीमाएं</p> <p>भाग 2 विद्युत चुम्बकीय संगतता (ई एम सी) — घरेलू साधित्र, विद्युत संयंत्र और समान उपकरणों के लिए अपेक्षाएँ</p> <p>अनुभाग 2 प्रतिरक्षा — पारिवारिक उत्पादों के उपयोग हेतु मानक (तीसरा पुनरीक्षण)</p>	24 अगस्त 2019
3.	<p>आई एस 7436 (भाग 2) : 2019 नदी घाटी परियोजनाओं में संरचनाओं के लिए उपकरणों की माप के प्रकारण स्थान का चुनाव और प्रकार के लिए गाइड</p> <p>भाग 2 कंक्रीट व मैसेनरी डैम्स (दूसरा पुनरीक्षण)</p>	25 जुलाई 2019	<p>आई एस 7436 (भाग 2) : 1997 नदी घाटी परियोजनाओं में संरचनाओं के लिए मापों के प्रकारों की मार्गदर्शिका और मापन उपकरणों के चुनाव व अवस्थापन की कसौटी</p> <p>भाग 2 कंक्रीट और चिनाई वाले बांधों के लिये (पहला पुनरीक्षण)</p>	24 अगस्त 2019
4.	<p>आई एस 8108 (भाग 1) : 2019 अनाज सुखाने के यंत्रों की परीक्षण पद्धति</p> <p>भाग 1 परीक्षण हेतु चयन एवं तैयारी (दूसरा पुनरीक्षण)</p>	25 जुलाई 2019	<p>आई एस 8108 (भाग 1) : 1984 अनाज सुखाने के यंत्रों की परीक्षण पद्धति</p> <p>भाग 1 परीक्षण हेतु चयन एवं तैयारी (पहला पुनरीक्षण)</p>	24 अगस्त 2019
5.	<p>आई एस 8654 : 2019 स्वचलित हाईड्रोलिक ब्रेक तरल, भारी ड्यूटी — विशिष्टि (तीसरा पुनरीक्षण)</p>	25 जुलाई 2019	<p>आई एस 8654 : 2001 स्वचलित हाईड्रोलिक ब्रेक तरल, भारी ड्यूटी — विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)</p>	24 अगस्त 2019

6.	आई एस 8865 : 2019/आई एस ओ 2451 : 2017 कोको बीज – विशिष्ट एवं गुणवत्ता की आवश्यकताएं (तीसरा पुनरीक्षण)	25 जुलाई 2019	आई एस 8865 : 2018/आई एस ओ 2451 : 2014 कोको बीज – विशिष्ट (दूसरा पुनरीक्षण) आई एस 8832 : 2003/आई एस ओ 1114 : 1977 कोको बीज – चीरा परीक्षण (पहला पुनरीक्षण) आई एस 8833 : 2003/आई एस ओ 2291 : 1980 कोको बीज – नमी की मात्रा ज्ञात करना (सामान्य पद्धति) (पहला पुनरीक्षण)	24 अगस्त 2019
7.	आई एस 9228 : 2019 चेयरलिफ्टस के लिए कुर्सियां – विशिष्ट (पहला पुनरीक्षण)	25 जुलाई 2019	आई एस 9228 : 1979 शीतकालीन खेलों में इस्तेमाल की जाने वाली चेयरलिफ्ट के लिए मोनो सीट कुर्सियों की विशिष्टता	24 अगस्त 2019
8.	आई एस 9266 (भाग 3) : 2019 दबा कर कार्य करने वाले डार्ड सेट (बॉस टाइप) – विशिष्ट भाग 3 सेंटर पोस्ट गोलाकार डार्ड सेट (पहला पुनरीक्षण)	25 जुलाई 2019	आई एस 9266 (भाग 3) : 1979 दबा कर कार्य करने वाले डार्ड सेट (बॉस टाइप) – विशिष्ट भाग 3 सेंटर पोस्ट गोलाकार डार्ड सेट	24 अगस्त 2019
9.	आई एस 9314 : 2019/आई एस ओ 2292 : 2017 कोको बीज – नमूना लेना (दूसरा पुनरीक्षण)	25 जुलाई 2019	आई एस 9314 : 2003/आई एस ओ 2292 : 1973 कोको बीज – नमूना लेना (पहला पुनरीक्षण)	24 अगस्त 2019
10.	आई एस 9706 : 2019 मेटिरियल हैंडलिंग रोवेस – रीति संहिता (दूसरा पुनरीक्षण)	25 जुलाई 2019	आई एस 9706 : 1997 माल ढुलाई के लिए रज्जु-मार्ग – डिजाईन और निर्माण की रीति संहिता (पहला पुनरीक्षण)	24 अगस्त 2019
11.	आई एस 10052 (भाग 1/अनुभाग 1) : 2019/सी आई एस पी आर 16-1-1 : 2015 रेडियो व्यवधान एवं प्रतिरक्षा मापन उपकरण एवं पद्धतियाँ – विशिष्ट भाग 1 रेडियो व्यवधान एवं प्रतिरक्षा मापन उपकरण अनुभाग 1 मापन उपकरण (तीसरा पुनरीक्षण)	25 जुलाई 2019	आई एस 10052 (भाग 1/अनुभाग 1) : 2014/सी आई एस पी आर 16-1-1 : 2010 रेडियो व्यवधान एवं प्रतिरक्षा मापन उपकरण एवं पद्धतियाँ – विशिष्ट भाग 1 रेडियो व्यवधान एवं प्रतिरक्षा मापन उपकरण अनुभाग 1 मापन उपकरण (दूसरा पुनरीक्षण) आई एस 10052 (भाग 1) : 1999/ सी आई एस पी आर 16-1-1 (1993)	24 अगस्त 2019

			रेडियो व्यवधान एवं प्रतिरक्षा मापन उपकरण एवं पद्धतियां भाग 1 रेडियो व्यवधान एवं प्रतिरक्षा मापन उपकरण (पहला पुनरीक्षण)	
12.	आई एस 11062 : 2019 खाद्य पदार्थों में कुल आहार फाइबर के आकलन की विधि (पहला पुनरीक्षण)	25 जुलाई 2019	आई एस 11062 : 1984 खाद्य पदार्थों में कुल आहार फाइबर के आकलन की विधि	24 अगस्त 2019
13.	आई एस 12207 : 2019 कृषि ट्रैक्टर — चुने हुए कार्यकारिता मापदंडों की अनुशंसाएँ (चौथा पुनरीक्षण)	25 जुलाई 2019	आई एस 12207 : 2014 कृषि ट्रैक्टर — चुने हुए कार्यकारिता मापदंडों की सिफारिशें (तीसरा पुनरीक्षण)	24 अगस्त 2019
14.	आई एस 12233 (भाग 3) : 2019/सी आई एस पी आर टी आर 18-3 : 2017 शिरोपरि पावर लाईनों तथा उच्च-वोल्टता के उपस्करों के रेडियो व्यतिक्रमण लक्षण भाग 3 रेडियो से उत्सर्जित आवाज़ को न्यूनतम करने की रीति संहिता (दूसरा पुनरीक्षण)	25 जुलाई 2019	आई एस 12233 (भाग 3) : 2016/सी आई एस पी आर टी आर 18-3 : 2010 शिरोपरि पावर लाईनों तथा उच्च-वोल्टता के उपस्करों के रेडियो व्यतिक्रमण लक्षण भाग 3 रेडियो से उत्सर्जित आवाज़ को न्यूनतम करने की रीति संहिता (पहला पुनरीक्षण)	24 अगस्त 2019
15.	आई एस 14700 (भाग 6/अनुभाग 1) : 2019/आई ई सी 61000-6-1 : 2016 विद्युत चुम्बकीय संगतता (ई एम सी) भाग 6 सामान्य मानक अनुभाग 1 आवासीय, व्यापारिक और सरल, औद्योगिक वातावरण के लिए प्रतिरक्षा मानक (पहला पुनरीक्षण)	25 जुलाई 2019	आई एस 14700 (भाग 6/अनुभाग 1) : 2008/आई ई सी 61000-6-1 : 2005 विद्युत चुम्बकीय संगतता (ई एम सी) भाग 6 सामान्य मानक अनुभाग 1 आवासीय, व्यापारिक और सरल, औद्योगिक वातावरण के लिए प्रतिरक्षा	24 अगस्त 2019
16.	आई एस 14700 (भाग 6/अनुभाग 2) : 2019/आई ई सी 61000-6-2 : 2016 विद्युत चुम्बकीय संगतता (ई एम सी) भाग 6 सामान्य मानक अनुभाग 2 औद्योगिक वातावरण के लिए प्रतिरक्षा मानक (पहला पुनरीक्षण)	25 जुलाई 2019	आई एस 14700 (भाग 6/अनुभाग 2) : 2008/आई ई सी 61000-6-2 : 2005 विद्युत चुम्बकीय संगतता (ई एम सी) भाग 6 सामान्य मानक अनुभाग 2 औद्योगिक वातावरण के लिए प्रतिरक्षा	24 अगस्त 2019
17.	आई एस 15077 (भाग 1) : 2019/आई ई सी 62007-1 : 2015 प्रकाशिक तंतु निकाय में अनुप्रयोगों के लिए अर्धचालक ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिकी युक्तियाँ भाग 1 अनिवार्य रेटिंग एवं लक्षणों के लिए टेम्पलेट विशिष्टि	25 जुलाई 2019	आई एस 15077 (भाग 1) : 2012/आई ई सी 62007-1 : 2008 प्रकाशिक तंतु निकाय में अनुप्रयोगों के लिए अर्धचालक ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिकी युक्तियाँ	24 अगस्त 2019

	(दूसरा पुनरीक्षण)		भाग 1 अनिवार्य रेटिंग एवं लक्षणों के लिए टेम्पलेट विशिष्टि अप्रैल 2012 में प्रकाशित हुआ (पहला पुनरीक्षण)	
18.	आई एस 15992 (भाग 1) : 2019/आई एस ओ 15836-1 : 2017 सूचना और प्रलेखन – डबलिन कोर मेटाडेटा तत्व सेट भाग 1 कोर तत्व (पहला पुनरीक्षण)	25 जुलाई 2019	आई एस 15992 : 2012/आई एस ओ 15836 : 2009 सूचना एवं प्रलेखन – द डबलीन कोर मेटाडेटा एलिमेंट सेट	24 अगस्त 2019
19.	आई एस 16514 (भाग 2) : 2019 अस्वचालित तोलन उपकरण की विशिष्टि भाग 2 मापक एवं तकनीकी अपेक्षाएँ	25 जुलाई 2019	आई एस 2489 : 1963 बच्चे के वजन मशीनों के लिए विशिष्टि	24 अगस्त 2019
20.	आई एस 16214 : 2019/ आई एस ओ 28500 : 2017 सूचना और प्रलेखन – डब्ल्यू ए आर सी फाइल फॉर्मेट (पहला पुनरीक्षण)	25 जुलाई 2019	आई एस 16214 : 2014/आई एस ओ 28500 : 2009 सूचना एवं प्रलेखन – डब्ल्यू.ए.आर.सी. फाइल फॉर्मेट	24 अगस्त 2019
21.	आई एस/आई ई सी 60793-1-50 : 2014 प्रकाशिक तंतु भाग 1 मापन विधियाँ और परीक्षण प्रक्रियाएँ अनुभाग 50 नम ऊष्मा (स्थायी अवस्था) परीक्षण (पहला पुनरीक्षण)	25 जुलाई 2019	आई एस/आई ई सी 60793-1-50 : 2001 प्रकाशिक तंतु भाग 1 मापन विधियाँ और परीक्षण प्रक्रियाएँ अनुभाग 50 नम ऊष्मा (स्थायी अवस्था)	24 अगस्त 2019

इस भारतीय मानक की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन, 9, बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली 110 002 क्षेत्रीय कार्यालयों : नई दिल्ली, कोलकता, चंडीगढ़, चेन्नई, मुंबई, तथा शाखा कार्यालयों: अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, कोयंबतूर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, नागपुर, पटना, पूणे तथा कोचि में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं। भारतीय मानकों को <http://www.standardsbis.in> द्वारा इंटरनेट पर खरीदा जा सकता है।

[संदर्भ : PUB/3/3/2019-20]

सुरीना राजन, महानिदेशक

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

(BUREAU OF INDIAN STANDARDS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26 July, 2019

S.O. 2844(E).—In pursuance of sub-rule (1) of Rule 15 of the Bureau of Indian Standards Rules, 2018, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian Standards, particulars of which are given in the second column of schedule hereto annexed has been established on the date indicated against it in third column. The particulars of the standards, if any, which are given in the fourth column shall also remain in force concurrently till they are cancelled on the date indicated against them in the fifth column.

SCHEDULE

Sl. No.	No, Year & Title of the Indian Standards Established	Date of Establishment	No. Year & Title of the Indian Standards to be Cancelled, if any	Date of Cancellation
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	IS 6873 (Part 2/Sec 1) : 2019/CISPR 14-1 : 2016 Limits and Methods of Measurement of Radio Disturbance Characteristics Part 2 Electromagnetic Compatibility (EMC) — Requirements for Household Appliances, Electric Tools and Similar Apparatus Section 1 Emission (Third Revision)	25 July 2019	IS 6873 (Part 2/Sec 1) : 2012/CISPR 14-1 : 2011 Limits and Methods of Measurement of Radio Disturbance Characteristics Part 2 Electromagnetic Compatibility (EMC) — Requirements for Household Appliances, Electric Tools and Similar Apparatus Section 2 Immunity — Product Family Standard Publishes in 2015 (Second Revision) IS 6873 (Part 2) : 1999 Limits and Methods of Measurement of Radio Disturbance Characteristics Part 2 Electrical Motor- Operated and Thermal Appliances for Household and Similar Purposes, Electric Tools and Electric Apparatus (First Revision)	24 August 2019
2.	IS 6873 (Part 2/Sec 2) : 2019/CISPR 14-2 : 2015 Limits and Methods of Measurement of Radio Disturbance Characteristics Part 2 Electromagnetic Compatibility (EMC) — Requirements for Household Appliances, Electric Tools and Similar Apparatus Section 2 Emission — Product Family Standard (Fourth Revision)	25 July 2019	IS 6873 (Part 2/Sec 2) : 2015/CISPR 14-2 : 2008 Limits and Methods of Measurement of Radio Disturbance Characteristics Part 2 Electromagnetic Compatibility (EMC) — Requirements for Household Appliances, Electric Tools and Similar Apparatus Section 2 Immunity — Product Family Standard (Third Revision)	24 August 2019
3.	IS 7436 (Part 2) : 2019 Guide for Types of Measurements	25 July 2019	IS 7436 (Part 2) : 1997 Guide for Types of	24 August 2019

	for Structures in River Valley Projects and Criteria for Choice and Location of Measuring Instrument Part 2 Concrete and Masonry Dams (Second Revision)		Measurements for Structures in River Valley Projects and Criteria for Choice and Location of Measuring Instrument Part 2 Concrete and Masonry Dams (First Revision)	
4.	IS 8108 (Part 1) : 2019 Methods of Test for Grain Dryers Part 1 Selection and Preparation for Test (Second Revision)	25 July 2019	IS 8108 (Part 1) : 1984 Test Code for Grain Dryers Part 1 Selection and Preparation for Test (First Revision)	24 August 2019
5.	IS 8654 : 2019 Automotive Hydraulic Brake Fluid, Heavy Duty — Specification (Third Revision)	25 July 2019	IS 8654 : 2001 Automotive Hydraulic Brake Fluid, Heavy Duty — Specification (Second Revision)	24 August 2019
6.	IS 8865 : 2019/ISO 2451 : 2017 Cocoa Beans — Specification and Quality Requirements (Third Revision)	25 July 2019	IS 8865 : 2018/ISO 2451 : 2014 Cocoa Beans — Specification (Second Revision) IS 8832 : 2003/ISO 1114 : 1977 Cocoa Beans — Cut Test (First Revision) IS 8833 : 2003/ISO 2291 : 1980 Cocoa Beans — Determination of Moisture Content (Routine Method) (First Revision)	24 August 2019
7.	IS 9228 : 2019 Chairs for Chairlifts — Specification (First Revision)	25 July 2019	IS 9228 : 1979 Specification for Mono Seat Chairs for Chairlifts Used in Winter Sports	24 August 2019
8.	IS 9266 (Part 3) : 2019 Press Working Die Sets (Boss Type) — Specification Part 3 Centre Post Round Die Sets (First Revision)	25 July 2019	IS 9266 (Part 3) : 1979 Specification for Press Working Die Sets (Boss Type) Part 3 Centre Post Square Die Sets	24 August 2019

9.	IS 9314 : 2019/ISO 2292 : 2017 Cocoa Beans — Sampling (Second Revision)	25 July 2019	IS 9314 : 2003/ISO 2292 : 1973 Cocoa Beans — Sampling (First Revision)	24 August 2019
10.	IS 9706 : 2019 Material Handling Ropeways — Code of Practice (Second Revision)	25 July 2019	IS 9706 : 1997 Aerial Ropeways for Transport of Material — Code of Practice for Design and Construction (First Revision)	24 August 2019
11.	IS 10052 (Part 1/Sec 1) : 2019/CISPR 16-1-1 : 2015 Radio Disturbance and Immunity Measuring Apparatus and Methods — Specification Part 1 Radio Disturbance and Immunity Measuring Apparatus Section 1 Measuring Apparatus (Third Revision)	25 July 2019	IS 10052 (Part 1/Sec 1) : 2014/CISPR 16-1-1 : 2010 Radio Disturbance and Immunity Measuring Apparatus and Methods — Specification Part 1 Radio Disturbance and Immunity Measuring Apparatus Section 1 Measuring Apparatus (Second Revision) IS 10052 (Part 1) : 1999/CISPR 16-1 : 1993 Specification for Radio Disturbance and Immunity Measuring Apparatus and Methods Part 1 Radio Disturbance and Immunity Measuring Apparatus (First Revision)	24 August 2019
12.	IS 11062 : 2019 Method for Estimation of Total Dietary Fibre in Foodstuffs (First Revision)	25 July 2019	IS 11062 : 1984 Method for Estimation of Total Dietary Fibre in Foodstuffs	24 August 2019
13.	IS 12207 : 2019 Agricultural Tractors — Recommendations on Selected Performance Characteristics (Fourth Revision)	25 July 2019	IS 12207 : 2014 Agricultural Tractors — Recommendations on Selected Performance Characteristics (Third Revision)	24 August 2019
14.	IS 12233 (Part 3) : 2019/CISPR TR 18-3 : 2017 Radio Interference Characteristics	25 July 2019	IS 12233 (Part 3) : 2016/CISPR TR 18-3 : 2010	24 August 2019

	of Overhead Power Lines and High-Voltage Equipment Part 3 Code of Practice for Minimizing the Generation of Radio Noise (Second Revision)		Radio Interference Characteristics of Overhead Power Lines and High-Voltage Equipment Part 3 Code of Practice for Minimizing the Generation of Radio Noise (First Revision)	
15.	IS 14700 (Part 6/Sec 1) : 2019/IEC 61000-6-1 : 2016 Electromagnetic Compatibility (EMC) Part 6 Generic Standards Section 1 Immunity Standard for Residential, Commercial and Light-Industrial Environments (First Revision)	25 July 2019	IS 14700 (Part 6/Sec 1) : 2008/IEC 61000-6-1 : 2005 Electromagnetic Compatibility (EMC) Part 6 Generic Standards Section 1 Immunity Standard for Residential, Commercial and Light-Industrial Environments	24 August 2019
16.	IS 14700 (Part 6/Sec 2) : 2019/IEC 61000-6-2 : 2016 Electromagnetic Compatibility (EMC) Part 6 Generic Standards Section 2 Immunity Standard for Industrial Environment (First Revision)	25 July 2019	IS 14700 (Part 6/Sec 2) : 2008/IEC 61000-6-2 : 2005 Electromagnetic Compatibility (EMC) Part 6 Generic Standards Section 2 Immunity for Industrial Environment	24 August 2019
17.	IS 15077 (Part 1) : 2019/IEC 62007-1 : 2015 Semiconductor Optoelectronic Devices for Fibre Optic System Applications Part 1 Specification Template for Essential Ratings and Characteristics (Second Revision)	25 July 2019	IS 15077 (Part 1) : 2012/IEC 62007-1 : 2008 Semiconductor Optoelectronic Devices for Fibre Optic System Applications Part 1 Specification Template for Essential Ratings and Characteristics (First Revision)	24 August 2019
18.	IS 15992 (Part 1) : 2019/ISO 15836-1 : 2017 Information and Documentation — The Dublin Core Metadata Element Set Part 1 core Elements (First Revision)	25 July 2019	IS 15992 : 2012/ISO 15836 : 2009 Information and Documentation — The Dublin Core Metadata Element Set	24 August 2019
19.	IS 16214 : 2019/ISO 28500 : 2017 Information and Documentation — WARC File Format (First Revision)	25 July 2019	IS 16214 : 2014/ISO 28500 : 2009 Information and Documentation — WARC File Format	24 August 2019
20.	IS 16514 (Part 2) : 2019 Specification for Non-Automatic	25 July 2019	IS 2489 : 1963 Specification for Baby	24 August 2019

	Weighing Instruments Part 2 Metrological and Technical Requirements		Weighing Machines	
21.	IS/IEC 60793-1-50 : 2014 Optical Fibres Part 1 Measurement Methods and Test Procedures Section 50 Damp Heat (Steady State) Tests (First Revision)	25 July 2019	IS/IEC 60793-1-50 : 2001 Optical Fibres Part 1 Measurement Methods and Test Procedures Section 50 Damp Heat (Steady State)	24 August 2019

Copies of these standards are available for sale with Bureau of Indian Standards, Manak Bhawan, 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002 ; Regional Offices: Kolkata, Chandigarh, Chennai, Mumbai and Marg Branch Offices: Ahmedabad, Bengaluru, Bhopal, Bhubaneswar, Coimbatore, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Nagpur, Patna, Pune, Kochi. Online purchase of Indian Standards can be made at <http://www.standardsbis.in>.

[Ref: PUB/3/3/2019-20]

SURINA RAJAN, Director General